



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 116]
No. 116]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 1978/फाल्गुन 15, 1899
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 1978/PHALGUNA 15, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE

(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

(Export Trade Control)

आवश

ORDER

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1978

New Delhi, the 6th March, 1978

का. आ. 151(अ)/सं. ई. (सी) ओ. 1977/ए.एम.(43).—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) 1947 (1947 का 18) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1977 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

S.O. 151(E)/No. E(C), 1977/AM(43).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Export (Control) Order, 1977, namely :—

1. इस आदेश को निर्यात नियंत्रण 10वां आदेश, 1978 की संज्ञा दी जाए।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में खण्ड 15 सेविंग (जे) के बाद निम्नलिखित के जोड़ा जाएगा :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Tenth Amendment Order, 1978.

2. In the Exports (Control) Order, 1977, after clause 15 Savings (j), the following shall be added :—

“(क)—निदेशक, नेशनल ब्लड ग्रुप रीफरेंस लैबोरेट्री, बम्बई द्वारा प्रत्येक मामले में इस संबंध में उनके द्वारा जारी किए गए विशेष प्रमाण-पत्र के आधार पर लोकप्रकारि आधार पर प्राण-रक्षा के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान या आपात चिकित्सा इलाज के प्रयोजन के लिए ब्लड ग्रुप ओएच (बम्बई फेनोटाइप) का निर्यात।”

“(k)—Export of Blood group on (Bombay Phenotype) meant for scientific research or emergency medical treatment, as life saving measure on humanitarian grounds, by the Director, National Blood Group Reference Laboratory, Bombay, on the basis of a specific certificate issued by him to this effect in each case.”

[File No. 46/1/77-EH]

का. आ. 152(अ)/सं. ई. (सी) ओ. 1977/ए.एम.(44) :—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात

[मिसिल सं. 46/1/77-ई. 2]

(नियंत्रण) आदेश, 1977 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 11वां आदेश 1978 की संज्ञा दी जाए।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 के लिए अनुसूची 1 के भाग 'क' में क्रम सं. 1(बी)(17) के सामने आई हुई वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—
“सांप (सब वन छाड़कर सभी प्रकार के)”।
3. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 के लिए अनुसूची—1 के भाग “ख” में क्रम सं. 4(बी)(1) के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी :—
“2—“सांपों का विष”।

[मिनिस्स सं. 26/1/78-ई 2]

का. वं. शंवाप्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

S.O. 152(E)/No. E(C)O, 1977/AM(44).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Eleventh Amendment Order, 1978.
2. In Part 'A' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977, the existing entry appearing against S. No. 1(b)(17) shall be substituted by the following :—
“Snakes (All species, except venom).”
3. In part B of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977, the following item shall be added after S. No. 4(b)(1) :—
“2—Venom of Snakes .

[F. No. 26/1/78-EII]

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports.